



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आश्विन 1937 (श10)

(सं0 पटना 1222) पटना, सोमवार, 12 अक्टूबर 2015

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश

2 सितम्बर 2015

सं0 07/ नि. (विधि-12) विविध-02/13-5562—चूँकि अधोहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक-5803 दिनांक 06.03.2014 के द्वारा बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, पटना (निबंधन संख्या-03/1969) के परिसमापन की विधिवत कार्यवाही में परिसमापक के सहयोगार्थ अधिनियम की धारा 44(1) के तहत श्री अनुज कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना को तत्काल के प्रभाव से सहायक परिसमापक नियुक्त किया गया था,

और चूँकि श्री अनुज कुमार के अन्यत्र पदस्थापन के फलस्वरूप प्रतिमा सतीश कुमार वर्मा, जिला पदाधिकारी, पटना-सह-परिसमापक, बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, पटना के पत्रांक-253 दिनांक 27.08.2015 के द्वारा परिसमापन की कार्यवाही के सुचारु रूप से संचालन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए श्री कमलेश कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्ता, पटना को सहायक परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया है,

अतः विचारोपरान्त बिहार सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1935 की धारा-44 (1) के तहत श्री अनुज कुमार, वरीय उप समाहर्ता, पटना के स्थान पर श्री कमलेश कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्ता, पटना को बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, पटना (विघटित) का सहायक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

नियुक्त सहायक परिसमापक, परिसमापन की कार्यवाही में परिसमापक द्वारा आवंटित कार्यों/दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

आदेश से,
अजय कुमार चौधरी,
निबंधक, सहयोग समितियाँ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1222-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>